

**प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में दिनांक 21.12.2017 एवं 22.12.2017 को
आयोजित राजभाषा सम्मेलन एवं संयुक्त हिन्दी कार्यशाला की रिपोर्ट**

निगम कार्यालय के निदेशानुसार प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में निगम कार्यालय एवं सभी इकाइयों के राजभाषा अधिकारियों एवं अनुवादकों के लिए दिनांक 21.12.2017 को राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में इकाइयों में वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की गई तथा राजभाषा कार्यान्वयन में मूल्यवर्धन हेतु अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

इस सम्मेलन के साथ ही दिनांक 22.12.2017 को एमपीएमसीआईएल सहित सभी नौ इकाइयों के ई-3 स्तर एवं इससे नीचले स्तर के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए एक संयुक्त हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस कार्यशाला में प्रशिक्षण हेतु विशेष रूप से आमंत्रित श्री संतोष व्यास जी, प्रोफेसर नर्मदा महाविद्यालय के अलावा आंतरिक व्यवस्था के रूप में श्री के.पी. श्रीवास्तव, प्रबंधक(राजभाषा) ने राजभाषा नीति, नियमों की जानकारी दी एवं डा. पूनम चतुर्वेदी, उप प्रबंधक(राजभाषा), भारत सरकार टकसाल, कोलकाता ने कंप्यूटर पर यूनिकोड के माध्यम से हिन्दी में कार्य करने संबंधी प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों द्वारा हिन्दी में कार्य करने के लिए अभ्यास भी कराया गया।

उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की अध्यक्षता इकाई महाप्रबंधक श्री टी.आर. गौड़ा जी द्वारा की गई। उन्होंने एसपीएमसीआईएल प्रबंधन द्वारा प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद में इस आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए अपना आभार व्यक्त किया तथा प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ उठाकर अपने कार्यों में सुधार अवश्य करें। उपरोक्त दोनों दिन के कार्यक्रम में श्री दूर्गेश पति तिवारी, उप महाप्रबंधक तथा श्री वेंकटेश कुमार, उप महाप्रबंधक, प्रकाका, होशंगाबाद ने भी प्रतिभागियों से राजभाषा में अपना अधिक से अधिक कार्य करने का आह्वान किया।

